



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]
No. 264]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2006/अग्रहायण 3, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2006/AGRAHAYANA 3, 1928

वस्त्र मंत्रालय

हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय

संकल्प

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2006

सं. 1/55/2000-डीसीएच/समन्वय.—भारत सरकार के संकल्प संख्या 1/55/2000-डीसीएच/समन्वय/एआईएचबी, दिनांक 28 अगस्त, 2006, 18 अक्टूबर, 2006 एवं 30 अक्टूबर, 2006 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को भी अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से नामित किया गया है :—

1. सरदार रविन्द्र सिंह बग्गा,
मार्फत सरदार हजूर सिंह बग्गा,
बग्गा किरयाना स्टोर,
बिल्ला वाली छपरी,
खन्ना-141401
(पंजाब)

उपरोक्त नए नियुक्त बोर्ड के सदस्य हथकरघा क्षेत्र में समग्र विकास कार्यक्रम के सृजन में सरकार को सलाह देंगे। उपरोक्त सदस्य की पदावधि बोर्ड की समयावधि के साथ-साथ अर्थात् 28 अगस्त, 2006 से दो वर्ष की होगी।

इसे माननीय वस्त्र मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

बी. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव एवं
विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT
COMMISSIONER FOR HANDLOOMS

RESOLUTION

New Delhi, the 14th November, 2006

No. 1/55/2000-DCH/Coordn.—In partial modification of Government of India's Resolution No. 1/55/2000-DCH/Coordn/AIHB, dated 28th August, 2006, 18th October, 2006 and 30th October, 2006, the following person has also been appointed as non-official member of the All India Handloom Board, with immediate effect :—

1. Sardar Ravinder Singh Bagga,
S/o Sardar Hazoor Singh Bagga,
Bagga Karyana Store,
Billa Wali Chhapri,
Khanna-141401
(Punjab)

The above newly appointed member of the Board would advise the Government in the formulation of overall development programme in the Handloom Sector. The term of office of the above member will be concurrent with the term of the Board i.e. a period of two years from 28th August, 2006.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister of Textiles.

B. K. SINHA, Jt. Secy. and
Development Commissioner (Handlooms)